



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2003 (आश्विन 12, 1925)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2003 (ASVINA 12, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 04 सितम्बर 2003

सं. ए 32011/1/99-प्रशा.1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री आर.एल. सिद्धू को दिनांक 24 जुलाई 2003 से आगामी आदेशों तक, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 14300-400-18300/- के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (निदेशक स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस.डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/3767/3/35/2002-प्रशा.5--श्री जी.एन. गुप्ता ने 10.09.2003 पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस.डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/3762/ए-19036/2/79-प्रशा.5--श्री हरबंस सिंह ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त 2003 अपराह्न से

सं. डीपी/एडी.5/2003/3769/3/35/2002-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री शैल कुमार भट्ट, लोक अभियोजक, के.ए. ब्यूरो को 05.09.2003 अपराह्न से

अगले आदेश तक के.अ.ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस.डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/3770/11/7/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने के.अ. ब्यूरो के निम्नलिखित पुलिस उपाधीक्षकों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री		
1	आर के भक्ता	02.05.2003
2	डी.एस. नरका	26.05.2003
3	एम.सी. साहनी	23.05.2003
4	केशव मिश्रा	02.05.2003
5	एम.एस. सुंदर राजन	02.07.2003
6	वी.के. बिंदल	13.06.2003 (अपराह)
7	एस.के. पेशिन	06.06.2003

एस.डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/3774/11/10/2001-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने के.अ. ब्यूरो के निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
1	2	3
सर्वश्री		
1.	रमन त्यागी	24.04.2003
2.	देश दीपक	05.08.2003
3.	जय नारायण राणा	16.06.2003
4.	ए.जी.एल. कौल	08.05.2003
5.	आर.के. कनारे	30.04.2003
6.	आर.के. अग्रवाल	28.04.2003
7.	घनश्याम राय	24.04.2003
8.	नागेंद्र प्रसाद	25.04.2003
9.	के.जी. वेणुगोपाल नायर	25.04.2003

1	2	3
सर्वश्री		
10.	नंद किशोर नायर	05.05.2003
11.	एल.एस. पद्मकुमार	01.05.2003
12.	अनिल कुमार	28.04.2003
13.	एस.एस. किशोर	30.04.2003
14.	जय प्रकाश मिश्रा	08.05.2003
15.	एच.सी. शर्मा	29.04.2003 (अपराह)
16.	पी.के. प्राड्य	26.04.2003
17.	मनोज कुमार तिवारी	25.04.2003
18.	आई.एम. करभारी	05.05.2003
19.	श्रीधर मलिक	05.05.2003
20.	बाली राम प्रभाकर	19.05.2003
21.	डी.के. परदेशी	24.04.2003
22.	दिनेश कुमार राय	05.05.2003
23.	बासिल करकेट्ट	29.04.2003 (अपराह)

एस.डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. 2/16/03-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सचिव श्री डी.डी. लोहानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 07.08.2003 (पूर्वाह) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)

सं. 2/16/03-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सचिव श्री एल.सी. साजनानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 12.09.2003 (पूर्वाह) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)

#### गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500 052, दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं. 15011/5/2003-स्थापना--भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय जापन संख्या 1-21015/10/2002-भा.पु.से. III दिनांक 11 अगस्त 2003 श्री हरिप्रसाद राजू, भा.पु.से. (असम-मेघालय : 93) को 8 सितम्बर 2003

पूर्वाह्न से स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर 03 मार्च 2006 तक या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है।

गणेश्वर झा  
निदेशक

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. ओ.दो.1995/84-सी.आर.सी.-एम.ओ. -श्रीमती ई. चरन मैट्टन (आई आर एल ए-2242) बेस अस्पताल-एक के.रि.पु. बल, नई दिल्ली ने सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 31.08.2003 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.08.2003 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.3634/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. शिवालकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु.बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 26.08.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल, मुजफ्फरपुर में तैनात किया जाता है।

जे.एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. ओ.दो.-5546/2002-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 04.05.2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री संतोष सिंह, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-5546), 31 बटालियन, के.रि.पु.बल, को उनके पद से दिनांक 01.09.2003 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.09.2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

(महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 सितम्बर 2003

संशोधन

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./न.सि./कार्मिक-2/1821--इस कार्यालय के पत्र सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./न.सि./2003/कार्मिक 2/1970 दिनांक 9.9.2003 का अवलोकन करें, जिसके तहत श्री नसीब सिंह, कमांडेंट के सेवा निवृत्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

उपरोक्त अधिसूचना की पहली लाइन में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जिसे अब निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:--

'के लिए' : श्री नसीब सिंह, वरिष्ठ कमांडेंट

'पढ़ा जाए' : श्री नसीब सिंह, कमांडेंट

आर.सी. अग्रवाल, भा.पु.से.  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 03 सितम्बर 2003

सं. 1/4/2003-प्रशा.3--राष्ट्रपति, श्री एम.आर. बालकृष्णन, उप निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग) को दिनांक 27.08.2003 (पूर्वाह्न) अर्थात् जिस तारीख से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है से भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अस्थायी क्षमता में नियमित आधार पर 12000-16,500/- रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति द्वारा संयुक्त निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयन्त कुमार बांठिया  
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. प्रशा. 1/का.आ.सं.-40--इस कार्यालय के श्री चन्द्र लाल विरमानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 30.09.2003 (अपराह्न) को भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 28.09.1943 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 14.08.1967 है।

ए. सिंह  
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा. 1/का.आ.सं.-41--इस कार्यालय के श्री सतीश कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 30.09.2003 (अपराह्न) को भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 23.09.1943 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 29.04.1964 है।

ए. सिंह  
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700 001, दिनांक 18 सितम्बर 2003

संख्या प्रशासन III/पेन/5-2/237--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पश्चिम बंगाल के श्री हिमांशु दे, पूर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री विमलेन्दु राय, पुः वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य), श्रीमति कल्याणी घोष, पू. लेखा परीक्षा अधिकारी तथा कार्यालय महालेखाकार

(स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा) पश्चिम बंगाल के श्री अजय कुमार मंडल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी व श्री मृणाल कान्ति विश्वास वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.08.2003 (अपराह्न) से प्रभावी वार्षिक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की, इसके अलावा इसी कार्यालय के श्री प्रदीप रंजन दासगुप्त, पूर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) ने दिनांक 01.08.2003 (पूर्वाह्न) से स्पेक्ष सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

डी पी यादव  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले.व.ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं. का. स्था./ह व से/ई 4 पें/76--श्रीमती, सेशनी थोमस, लेखा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, 31.08.2003 अपराह्न को अधिवर्षिता के कारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

हस्ता/- अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 11 सितम्बर 2003

स्था.आ.सं. 25--ज्ञापन सं. प्रशा.1 (लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IV/1028, दि. 03.09.2003, द्वारा सूचित का.आ.ग. 690 दिनांक 03.09.2003 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7500-250-12000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

क्र.सं. अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1. शुद्धम चरण मल्लिक	04.09.2003 (पूर्वाह्न)

लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी/उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

हस्ता/- अपठनीय  
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. का. स्था(हक)/पेन/10-2/2003.2004--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

क्र. सं.	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	श्री एस. हरिहरा शर्मा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.06.2003 (अपराह्न)	अधिवार्षिकी
2.	श्रीमती सी. पद्मावती वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.08.2003 (अपराह्न)	अधिवार्षिकी

नारायणन सी.के.  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है:-

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए जाने की तारीख
सर्वश्री			
1.	तारा चन्द	23.08.1943 31.08.2003	01.09.2003
2.	के. जे. काले	23.08.1943 31.08.2003	01.09.2003
3.	कैलाश राम	01.09.1943 31.08.2003	01.09.2003
4.	बी. एस. वाजपेयी	14.08.1943 31.08.2003	01.09.2003

कुप्पास्वामी  
रक्षा लेखा सहा. महानियंत्रक (प्रशा.)

वरण मंत्रालय

(पञ्चम आश्रित को कार्यालय)

कोलकाता-700069, दिनांक 10 सितम्बर 2003

पत्रांक जूट(ए)/147/58-VI--राष्ट्रपति महोदय, श्री स्वप्न मैत्रा, भारतीय आभूषण सेवा अधिकारी को उप निदेशक (विपणन) के वर्ग 'क' के राजपत्रित पद पर पञ्चम आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता में रु. 10,000-325-15200/- के वेतनमान पर अगला आदेश होने तक 16 अगस्त, 2003 की पूर्वाह्न से 15 अगस्त 2004 या अगला आदेश जो भी पहले हो तक उनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा को पांचवी वर्ष के लिए यानी एक वर्ष की सेवा और बढ़ाते हैं।

श्री एस. मैत्र की नियुक्ति इस कार्यालय में प्रतिरक्षा मंत्रालय द. ब्लाक, नई दिल्ली से तीन वर्ष की अवधि के लिए 16 अगस्त, 1999 से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर हुआ था, जिसे एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया जो 16 अगस्त, 2002 से पूर्वह से 15 अगस्त, 2003 तक अर्थात् चौथे वर्ष के लिए प्रभावी रहा।

प्रतिनियुक्ति के संबंध में वेतन आदि की भुगतान संबंधी अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एस. के. दास  
पहसन उपयुक्त

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं. ए-19018/1118/91-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोयम्बटूर में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (धातुकर्म), श्री आर. पन्नीर सैल्वम को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 10000-325-15200 के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, अगस्तला में उप निदेशक (धातुकर्म) स्थापनापत्र आधारित के पद पर दिनांक 07-08-2003 (अपूर्वह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1680/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, करणसी में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (धातुकर्म), डा. अमर नाथ को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुवाहाटी में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (धातुकर्म) स्थापनापत्र आधारित के पद पर दिनांक 02-09-2003 (पूर्वह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं. 4909/B/ए-38012/1 (स्वै. सेवानि.)/प्रशासन/2000/19ए--श्री एम. आर. रंगाचारी, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 11.07.2003 पूर्वाह से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 (ए) 1 के अन्तर्गत हो गई है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 4917/B/ए-38012/1 (स्वै. सेवानि.)/प्रशासन/2000/19ए--श्री जी. एफ. संगलीङ्ग, प्रशासन अधिकारी श्रेणी-1, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01.07.2003 पूर्वाह से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 (ए) 1 के अन्तर्गत हो गई है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं. 4925/B/ए-32013/एच.ओ./2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सुश्री वन्दना रूपेश शंभरकर, अधीक्षक (हिन्दी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हिन्दी अधिकारी के पद पर इसी विभाग में पदोन्नति पर स्थानापन्न के रूप में रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर दिनांक 13.08.2003 (पूर्वह) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. 2617/A/ए-19011 (1-एच.वी.डी.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्रीमती एन. विजय दुर्गा, सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूवैज्ञानिक (क्रिप्ट) के पद पर इसी विभाग में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 20.03.2003 के पूर्वह से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 22 सितम्बर 2003

सं. 2166/एसपी/ए-32013/एस.ओ./2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, श्री पी. सी. सेठ, भण्डार अधीक्षक (तकनीकी) को भण्डार अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर, इसी विभाग में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर अगले आदेशों तक दिनांक 02.06.2003 (पूर्वाह) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. 4940/B/ए-35018/डी.जी.(एफ)/96/19सी--राष्ट्रपति द्वारा श्री अनिर्बान मुखोपाध्याय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.जे.-80) को उपमहानिदेशक (वित्त) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 18,400-22,400/- के वेतनमान में सामान्य नियमानुसार वेतन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पांच वर्ष की सामान्य अवधि हेतु दिनांक 12.08.2003 के पूर्वाह्न से प्रभावित अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पूर्व घटित हो, नियुक्त किया जाता है।

के. पी. गौतम  
निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  
(विरल पदार्थ परियोजना)

मैसूर-571130, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. विपप/वैयक्तिक/1106/2003/2178--राष्ट्रपति महोदय ने डा. राजू तमिलारासी को रु. 8000-275-13500 + प्रेक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान में दिनांक 8 अगस्त, 2003, पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विरल पदार्थ परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा) के पद पर सहर्ष नियुक्त किया है।

अंटोनी डि सा  
नियंत्रक

सं. विपप/वैयक्तिक/1093/2003/2179--राष्ट्रपति महोदय ने डा. संतोष प्रभाकर राव गादागीन को रु. 8000-275-13500 + प्रेक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान में दिनांक 30 जून, 2003, पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विरल पदार्थ परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा) के पद पर सहर्ष नियुक्त किया है।

अंटोनी डि सा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 19 मई 2003

आदेश

सं. 1/15(6)/98/वीआईजी./265--जबकि यह आरोपित किया गया था कि डॉ. (श्रीमती) मृदुला बी. सत्यमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी/डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुंबई को उनकी बच्ची के यूएसए में उपचार हेतु दिनांक 21.06.1996 से 15.12.1997 तक की असाधारण छुट्टी प्रदान की थी, लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद भी उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की और ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के अनुदेशों के बावजूद दिनांक 16.12.1997 से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रही हैं;

और जबकि उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति ने अपने उपरोक्त आचरण से ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठा एवं लगन में कमी दर्शायी है जो सरकारी सेवा में बने रहने के प्रतिष्कूल है और इस प्रकार केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 के उप नियम 1(ii) एवं (1) (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

और जबकि उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति को दिनांक 09.11.99 के ज्ञापन सं. 1/25(6)/98/वीआईजी./804 द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत उनके विरुद्ध प्रस्तुतित कार्रवाई एवं लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई थी;

और जबकि उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति ने दिनांक 28.11.99 को अपने बचाव में लिखित बयान में आरोप को स्वीकार किया है;

और जबकि उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति द्वारा प्रस्तुत बचाव के लिखित बयान एवं मामले के रिकॉर्ड और आरोप की मर्दों के कुछ निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि उनका बच्चा यूएस में उपचार ले रहा है तथापि उसके लिए अनिश्चित छुट्टी मंजूर करना कार्य के हित में नहीं है। उनकी कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले में एक उदार दृष्टिकोण रखा गया एवं डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति पर सभी स्वीकार्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड सुझाया जाता है;

और जबकि संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले के बारे में परामर्श लिया गया। सभी संगत तथ्यों एवं मामले के रिकॉर्ड पर विचार पूर्वक ध्यान देखने के बाद आयोग के अपने दिनांक 31.03.2000 के पत्र सं. एफ 3/479/99-एएसआई के अनुसार आरोपित अधिकारी द्वारा बिना शर्त आरोप मान्य न करने के कारण औपचारिक जांच आयोजित करने की सलाह दी;

और जबकि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत दिनांक 28.06.2000 के आदेश सं. 1/15(6)/99/वीआईजी./374 के अनुसार एक जांच प्राधिकारी के नियुक्त करते हुए एक औपचारिक जांच आदेशित की गई है;

और जबकि एक तरफ जांच कार्यवाही पूरी होने के बाद, जांच प्राधिकारी ने उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति के विरुद्ध लगाए आरोपों को सिद्ध करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की;

और जबकि दिनांक 16.10.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/15(6)/99/वीआईजी./466 द्वारा उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति को जांच रिपोर्ट की प्रति भेजी गयी थी ताकि जांच रिपोर्ट के विरुद्ध यदि उन्हें कोई लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो तो कर सकें, जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आ गयी;

और जबकि जांच रिपोर्ट और इस मामले के अन्य रिकॉर्डों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के बाद और आरोप की मर्दों पर अपने निष्कर्ष भी निकालने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी इस मामले को यथोचित न्याय देने के लिए इस निष्कर्ष पर आये कि उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति पर सभी स्वीकृत सेवा निवृत्ति के लाभों के साथ "अनिवार्य सेवा निवृत्ति" का दंड लगाया जाए;

और जबकि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया गया और आयोग ने सभी संगत तथ्य एवं मामले के अन्य पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करने

के बाद डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति को दिनांक 25.07.2002 के पत्र सं. एफ 3/479/99/एस I (प्रति संलग्न) द्वारा "सेवा से बर्खास्त" करने की सलाह दी है;

और जबकि संघ लोक सेवा आयोग से इस विषय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया। आयोग ने मामले से संबंधित सभी सुसंगत रिकार्डों एवं अन्य बातों का विधिवत् मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने अपने रुख को पुनः दोहराते हुए अपने दिनांक 13.12.2002 के पत्र संख्या एफ. 3/479/99-एसआई (प्रति संलग्न) द्वारा उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) सत्यमूर्ति को "सेवा से बर्खास्त" करने के दंड का परामर्श दोहरा दिया है;

इसीलिए अब राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की उपरोक्त सलाह मान ली है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 15(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपरोक्त डॉ. (श्रीमती) मृदुला बी. सत्यमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी/डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को तत्काल प्रभाव से "सेवा से बर्खास्त" करने का दंड लगाया है;

दिनांक 16 दिसम्बर 1997 से इस आदेश के जारी होने तक की अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस के रूप में माना जाए।

राष्ट्रपति के आदेश एवं उनकी ओर से

अनिल काकोडकर  
सचिव

(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता-700064, 15 सितम्बर 2003

सं.वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/3936:--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर : (रु. 16,400-450-20,000/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
1.	डॉ. ए. राय	वै. अधिकारी (एफ)	रु.14,300-400-18,300/-
2.	डॉ. एस. के. बंधोपाध्याय	वै. अधिकारी (एफ)	रु.14,300-400-18,300/-
3.	श्री गौतम पाल	वै. अधिकारी (एफ)	रु.14,300-400-18,300/-

एन. श्रीनिवास राव  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कोलकाता-700064, 15 सितम्बर 2003

सं.वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/3939:--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को स्थानापन्न रूप में

विशिष्ट वैज्ञानिक, (वेतनक्रम : रु. 22,400-525-24,500) के पद पर 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से इसी केन्द्र में अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वर्तमान वेतनमान
1.	डॉ. आर. के. भंडारी	वै. अधिकारी (एच)	रु.18,400-500-22,400/-

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/3940:--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को स्थानापन्न रूप में वैज्ञानिक अधिकारी (एच), (वेतनक्रम : रु. 18,400-500-22,400) के पद पर 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से इसी केन्द्र में अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वर्तमान वेतनमान
1.	श्री एस. के. दास	वै. अधिकारी (जी)	रु.16,400-450-20,000/-
2.	डॉ. एस. के. बसु	वै. अधिकारी (जी)	रु.16,400-450-20,000/-
3.	श्री जे. चौधरी	वै. अधिकारी (जी)	रु.16,400-450-20,000/-
4.	डॉ. डी. सरकार	वै. अधिकारी (जी)	रु.16,400-450-20,000/-
5.	श्री अमिताभ सुर	वै. अधिकारी (जी)	रु.16,400-450-20,000/-

एस. बी. बोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452 013, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. कोट/प्रशा./भ-115(भाग-IV)/982:--भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रशिक्षार्थी वैज्ञानिक अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्रमांक	नाम	दिनांक
1	2	3
1.	श्री आलम अनूप सिंह वालिया	31.8.2002 (अपराह)
2.	श्री नकुल	31.8.2002 (अपराह)
3.	श्री भूपिन्दर सिंह	31.8.2002 (अपराह)
4.	श्री शंकर लाल	31.8.2002 (अपराह)
5.	श्री दीपक कुमार शर्मा	31.8.2002 (अपराह)
6.	श्री योगेश वर्मा	31.8.2002 (अपराह)
7.	कुमारी प्रज्ञा पंडित	31.8.2002 (अपराह)
8.	श्री अमित उपाध्याय	31.8.2002 (अपराह)
9.	श्री मनोज कुमार सक्सेना	31.8.2002 (अपराह)

1	2	3
10.	श्री रावधीर सिंह सैनी	31.8.2002 (अपराह)
11.	श्री डी. ए. मिश्रा	01.09.2002 (पूर्वाह)
12.	श्री सूर्य प्रकाश राम	01.09.2002 (पूर्वाह)

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

#### अन्तरिक्ष विभाग

(विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र)

तिरुवनंतपुरम्-695022, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं. वी.एस.एस.सी./स्था./एफ/1(17)--निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा श्रीमती लूसी के. माथ्यू वरिष्ठ तकनीशियन-क, आई आई एस यू को पदोन्नति पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक/इंजीनियर एस बी के पद पर विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में तारीख 01.07.2003 (पूर्वाह) से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

जोर्ज कोशी  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं. ए-32013/3/2001-स्था.2--राष्ट्रपति, श्री आर. पी. साही, नागर विमानन महानिदेशालय के निदेशक उड़नयोग्यता जोकि वर्तमान में COSCAP दक्षिण एशिया, काठमांडू स्थित नेपाल में क्षेत्रीय उड़नयोग्यता निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके पदोन्नति पर, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय, नई दिल्ली में 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में, उप/महानिदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अगले आदेशों तक उप महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया  
उपनिदेशक, प्रशासन

सं. ए-32013/3/2001-स्था.2--राष्ट्रपति, श्री सुभाष चन्दर, नागर विमानन महानिदेशालय के वायु सुरक्षा निदेशक को महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में, उपलब्ध अस्थायी रिक्ति पद उप महानिदेशक के पद पर दिनांक 12.09.2003 से श्री आर. पी. साही के प्रतिनियुक्ति से वापिस आने तक अथवा 31.03.2004 तक, जो भी पहले हो, अस्थायी आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया  
उपनिदेशक, प्रशासन

#### जल संसाधन मंत्रालय

(केंद्रीय भूमिजल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 8 सितम्बर 2003

सं. 3-1443/03-स्था. (एम.)--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह ख) की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को वेतनमान रु. 7500-250-12000/- एवं अन्य भत्तों के साथ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि (उनके नाम के सामने दर्शायी गई) से नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं	नाम	पद स्थापन का स्थान	पदोन्नति की तारीख
	सर्वश्री		
1.	सोहन लाल	मध्य पूर्व क्षेत्र, पटना	7.4.2003
2.	ए. एस. सुब्रामनियम	दक्षिण पूर्व समुद्री-क्षेत्र, चेन्नई	30.7.2003
3.	के. के. श्रीवास्तव	उत्तर क्षेत्र, लखनऊ	24.7.2003
4.	डी. एन. मोहलिया	मुख्यालय, फरीदाबाद	1.8.2003
5.	त्रिवर सिंह	दक्षिण क्षेत्र, हैदराबाद	25.7.2003
6.	एन. के. बासुमतारी	उत्तर-पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी	7.7.2003

वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेंगे। सक्षम अधिकारी ने अगर अनिवार्य समझा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

एस. एस. चौहान  
विभागाध्यक्ष

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं. 3-1448/2003-स्था. ई.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री केशव लाल को दिनांक 11.8.2003 (पूर्वाह) में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) रूप 7500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

आशीष चक्रवर्ती  
अधिशाली अभियंता

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 11 सितम्बर 2003

सं. एफ. 48 एडी(एटी) 2003--श्री एस. के. राय, अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई को, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक 01 सितम्बर, 2003 (पूर्वाह) से छः माह की अवधि



के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, मुंबई में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

श्री एस. के. राय की उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ वरिष्ठता के अधिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

वी. डांगजायंग  
अध्यक्ष

सं. एफ. 301 एडी(एटी) 2003--श्री अशोक कुमार शर्मा, निजी सचिव, व्यापार कर अधिकरण, आगरा को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण, आगरा पीठ, आगरा में रु. 7500-250-12000/- के वेतनमान में दिनांक 01.08.2003 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

वी. डांगजायंग  
अध्यक्ष

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरियन्ट इक्युपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं. 560/55-18661/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरियन्ट इक्युपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माउलिनेक्स होम एप्लाइसेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं. 560/55-39062/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माउलिनेक्स होम एप्लाइसेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एलैयड एजुकेशनल फाऊन्डेशन के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. 560/55-63322/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलैयड एजुकेशनल फाऊन्डेशन का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्साईटिंग फाइनैसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अगस्त 2003

सं. 560/55-71948/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्साईटिंग फाइनैसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिकोर्डर प्रेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं. 560/55-32572/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिकोर्डर प्रेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560/55-26736/OGI-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बाक्स्ट इन्डिया कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

सं. 560/55-33973/OGI-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

सं. 560/55-14167/OGI-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती



सं. 560/55-24283/OG1-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

सं. 560/55-16693/OGI-452--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती









रिटरीट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

राजकुमार साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आयलटेक रासमोस  
(इण्डिया) लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/117/55/61074/6281--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आयलटेक रासमोस (इण्डिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिल्वर आक इनवेस्टमेंट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/5/05/32314/4385--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिल्वर आक इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एम. मोदी इन्स्टीट्यूट  
आफ इंगलिश प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/46/55-105341--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी. एम. मोदी इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चान्दना हास्पिटल प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/124/05/33745/6331--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चान्दना हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रियंका फार्मास्यूटिकल्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/122/05/19247/6332--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रियंका फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जान-ऐ-आलम चिट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. 560(3)/एसईएस/125/05/30476--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जान-ऐ-आलम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बहेटी ट्रेडिंग प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/11241/धारा 560(3)/1850--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बहेरी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिव्या सेक्युरिटीस एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 345/69911/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दिव्या सेक्युरिटीस एण्ड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समस्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 344/103718/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समस्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूकलेस मेडीकल सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 332/52915/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यूकलेस मेडीकल सेंटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्लाइव्हील सोलुशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 329/129495/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्लाइव्हील सोलुशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गीरीजात्मक कार्गो लीफ्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 334/63946/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गीरीजात्मक कार्गो लीफ्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाकनको केन एण्ड पेकेजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 339/114990/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नाकनको केन एण्ड पेकेजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अपेक्स लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 100142/340/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपेक्स लोजिस्टिक्स

सं. 343/113525/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्रीकउड (इंडिया)

कम्प्युनिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीधक्रीस कन्सलटेन्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 341/111525/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीधक्रीस कन्सलटेन्ट्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीवी इंडिया वाल्वस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 342/114653/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सीवी इंडिया वाल्वस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंटरवेव कम्प्युनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 347/128343/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंटरवेव कम्प्युनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मसजीद मोत इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 346/32755/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मसजीद मोत इन्वेस्टमेन्ट एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 566 के अंतर्गत फास्ट ट्रेक स्कीम के अंतर्गत मैसर्स आकांकक्ष इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 2428/31736/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) तथा भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-9-2000 के पत्र संख्या 1/5/2000 सीएल व्ही के परिपत्र संख्या 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी आदि द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनकी आपत्तियां लिखित रूप में सूचित करें।

यदि प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स आकांकक्ष इंजीनियरिंग प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेरकर प्रिंट कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 353/66162/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेरकर प्रिंट कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

सं. 351/30160/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेटोन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीराज ट्रेडिंग कम्पनी  
के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 354/30181/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वीराज ट्रेडिंग कम्पनी का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनमोल वाल्व्स एण्ड फीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 350/65582/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस रीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनमोल वाल्वस एण्ड फोर्टिस इन्वेंट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो नक्से से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उज्ज्वला रीयल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 355/123127/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन घास के अवसान पर मैसर्स उज्ज्वला सीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीकेत ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 348/53424/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस गरीब से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीकेत ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्याम सुन्दर.

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स युनीक ग्राफिक इनग्रेविंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

रुम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वालिटी क्लब वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं. 349/122788/560—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि स तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्वालिटी क्लब वेन्चर्स

श्याम सुन्दर

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चान फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 17 सितम्बर 2003

सं. कं. सं. 560/3/18677/एस. सं. 03-04--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो कम्पनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनी विघटित समझी जाएगी।

ह./- अपठनीय  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 4th September 2003

No. A-32011/1/99-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri R.L. Sidhu, CSS, Deputy Secretary, UPSC as Joint Secretary (Director level) in the Union Public Service Commission, in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 24 July 2003 until further orders.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 16th September 03

No. DPAD52003/3762/A-19036/2/79.—Shri Harbans Singh relinquished charge of the post of Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of August 31, 2003.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Estt.) CBI

No. DPAD52003/3767/3/35/2002—Shri G.N. Gupta relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the Forenoon of 10.09.2003 on voluntary retirement.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Esstt.) CBI

No. DPAD5/2003/3769/3/5/96-AD.V—The President is pleased to appoint Sh. Shaila Kumar Bhatt, Public Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the afternoon of 5.9.2003 and until further order.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Estt.) CBI

No. DPAD5/2003/3770/11/7/2003-AD.V—The President is pleased to appoint the following Deputy Supdts. of Police, CBI as Additional Supdts. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on

promotion, with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No	Name of the Officer	Date of appointment as Addl. SP
1	2	3
	S/Shri	
1.	R.K. Bhakta	02.05.2003
2.	D.S. Naruka	26.05.2003
3.	M.C. Sahni	23.05.2003
4.	Keshav Mishra	02.05.2003
5.	M.S. Sunder Rajan	02.07.2003
6.	V.K. Bindal	13.06.2003 (AN)
7.	S.K. Pashin	06.06.2003

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Estt.)

No. DPAD5/2003/3774/11/10/2001-AD.V—The President is pleased to appoint the following Inspectors of Police, CBI as Deputy Supdts. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as DSP
1	2	3
	S/Shri	
1.	Raman Tyagi	24.4.2003
2.	Desh Deepak	5.8.2003
3.	Jai Narayan Rana	16.6.2003
4.	A.G.L. Kaul	8.5.2003
5.	R.K. Kanhare	30.4.2003
6.	R.P. Aggarwal	28.4.2003
7.	Ghanshyam Rai	24.4.2003
8.	Nagendra Prasad	25.4.2003
9.	K.G. Venugopal Nair	25.4.2003
10.	Nand Kishore Nair	5.5.2003
11.	L.S. Padmakumar	1.5.2003



1	2	3
12.	Anil Kumar	28.4.2003
13.	S.S. Kishore	30.4.2003
14.	Jai Prakash Mishra	8.5.2003
15.	H.C. sharma	29.4.2003 (AN)
16.	P.K. Pandey	26.4.2003
17.	Manoj Kumar Tiwari	25.4.2003
18.	I.M. Karbhari	5.5.2003
19.	Sridhar Mallik	5.5.2003
20.	Bali Ram Prabhakar	19.5.2003
21.	D.K. Pardeshi	24.4.2003
22.	Dinesh Kumar Rai	5.5.2003
23.	Basil Karketta	29.4.2003 (AN)

S. D. BAIJAL  
Admn. Officer (Estt.)

### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 16th September 2003

No. 2/16/03-Admn.—The Central Vigilance Com-missioner hereby appoints Shri D.D. Lohani, Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- for a period of three months on ad-hoc basis w.e.f. 07.08.2003 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)

No. 2/16/03-Admn.—The Central Vigilance Com-missioner hereby appoints Shri L.C. Sajnaji, Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- for a period of three months on ad-hoc basis w.e.f. 12.09.2003 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Deputy Secy (Admn.)

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS SARDAR VALLABHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 11th September 2003

No. 15011/5/2003-Estt.,—Vide the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 1-21015/10/2002-IPS. III dated 11th August 2003, Shri G. Hari Prasada Raju, IPS (AM:93) has been appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of 08th September 2003 for a period upto

03rd March 2006 or until further orders whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

GANESHWAR JHA  
Director

### DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 16th September 2003

No. O.II-1995/84-CRC (MOs):—On her superannuation from service Smt. E. Charan, Matron (IRLA-2242) of BH-1, CRPF, New Delhi made over charge of her post from the afternoon of 31/08/2003. Accordingly her name stands deleted from the strength of the Force from 31/08/2003 (AN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II-3634/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shivalkar as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 26/08/2003 till further order. He is posted to GC, CRPF, Muzaffarpur.

J.N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.I)

New Delhi, the 17th September 2003

No. O. II-5546/2002-Pers-I—Censequent on acceptance of his notice dated 4.5.2003 for voluntary retirement from Government service, Shri Santokh Singh Asstt. Commandant (IRLA: 5546) of 31 Bn CRPF has been relieved from his post on 1.9.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 1.9.2003(FN).

MAN SINGH RAWAT  
DIG (Pers.)

### DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 12th September 2003

#### AMENDMENTS

No. 28017/5/NS/2003/Pers.II/1821—Reference this office letter No. E-28017/5/NS/2003/Pers-II/1790 dated 9.9.2003 regarding issue of 'Notification' in respect of Shri Nasib Singh, Commandant who has since been retired from service.

The following amendment is herey made in the 2nd and 3rd lines of the above notification which may be read as under:—

'FOR' — Senior Commandant/Principal

'READ' — Commandant/Principal

R. C. AGRAWAL, IPS  
Director General/CISF

#### OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 03rd September 2003

No. 1/4/2003-Ad.III—The President is pleased to appoint Sh. M.R. balakrishnan, Deputy Director (Electronic Data Processing) to the post of Joint Director (Electronic Data Processing) by promotion in the pay scale of Rs. 12,000-16,500 on a regular basis in a temporary capacity in the Office of the Registrar General, India, with effect from 27.08.2003 (FN) the date on which he assumed charge of the post.

J. K. BANTHIA  
Registrar General & Census Commissioner

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 17th September 2003

Admn. I/O.O. No. 40—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Chander Lal Virmani, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India on 30.09.2003(AN).

His date of birth is 28.09.1943 and he joined the Government service of 14.08.1967.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy Director (Admn.)

Admn. I/O.O. No. 41—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Satish Kumar Aggarwal, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the service of Govt. of India on 30.09.2003 (AN).

His date of birth in 23.09.1943 and he joined the Government service on 29.04.1964.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 18th September 2003

No. Admn. III/Pen/5-2/236—Shri Himansu De, Sr. Audit Officer, Shri Bimalendu Roy, Sr. Audit Officer (Com.), Smt. Kalyani Ghosh, Audit Officer of this office retired from service on superannuation on 31.08.2003 (AN). Shri Pradip Ranjan Dasgupta, Sr. Audit Officer (Com.) also retired voluntarily from service on 01.08.2003(FN) from this office.

Further, Shri Ajay Kumar Mondal, Sr. Audit Officer and Shri Mrinal Kanti Biswas, Sr. Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal retired on superannuation on 31.08.2003 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I ORISSA

Bhubaneswar, the 11th September 2003

E.O. No. 25—In pursuance of OOC No. 690 dtd. 03.09.2003, communicated vide Memo No. Admn-I(Au) 17-2(AO)/Vol.IV/1028 dtd. 03.09.2003, the following Assistant Audit Officer on his promotion has assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against his name :—

Sl No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of Taking over charge as Audit Officer
1.	Sudam Charan Mallick	04/09/2003 (FN)

The promotion to the cadre of Audit Officer is subject to the final decision of the Hon'ble High Court/C.A.T/ Supreme Court on the cases subjudice in the courts and without prejudice to the claims of his seniors.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Deputy Accountant General/Admn.

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) KERALA

Thiruvananthapuram, the 15th September 2003

No. OE(Entt)I/Pen/10-2/2003-2004—The following officials of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the dates noted against their names.

Sl.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1	Shri S. Harihara Sharma, Sr. Audit Officer	1.08.2003 (AN)	Superannuation
2	Smt. C. Padmayathy, Sr. Audit Officer	31.08.2003 (AN)	Superannuation

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 18th September 2003

No. O.E./E&C/EIVP/76—Smt. Roshini Thomas Accounts Officer of IA&AD retired from service on superannuation on 31.08.2003 AN.

Sd./- ILLEGIBLE

Deputy Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF  
DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 15th September 2003

No. AN-1/1467/5/1(G).—The under-mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each:—

Sl No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	Tara Chand	23.08.1943 31.08.2003	01.09.2003
2.	K.J. Kale	23.08.1943 31.08.2003	01.09.2003
3.	Kailash Ram	01.09.1943 31.08.2003	01.09.2003
4.	B.S. Bajpai	14.08.1943 31.08.2003	01.09.2003

KUPPASWAMY  
Asstt. Controller General of Defence  
Accounts (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES  
(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)  
Kolkata-700069, the 10th September 2003

No. Jute (A)/147/58-VI.—The President is pleased to extend the service of Sri Swapan Moitra, Indian Supply Service Officer as Deputy Director (Marketing) a Group 'A' Gazetted post in the Office of the Jute Commissioner, Kolkata in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15200/- for a further period of one year i.e. for the fifth year with effect from the forenoon of the 16th August 2003 i.e. upto 15th August 2004 or until further orders whichever is earlier.

Sri Moitra was posted on transfer on deputation basis in this office from Ministry of Defence, South Block, New Delhi for a period of three years w.e.f. 16th August, 1999,

which was extended for a period of one year with effect from the forenoon of the 16th August, 2002 i.e., upto 15th August, 2003 i.e. for the fourth year.

The other terms and conditions regarding drawal of pay etc. of the deputation remain unchanged.

SAURABH K. DAS  
Deputy Jute Commissioner

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 18th September 2003

No. A-19018/18/91-Admn (G).—The President is pleased to appoint Shri R. Paneer Selvam, Assistant Director (Grade-I) (Metallurgy), Branch Small Industries Service Institute, Coimbatore as Deputy Director (Metallurgy) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in Small Industries Service Institute, Agartala with effect from the afternoon of 07.08.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI  
Deputy Director (Admn.)

No. A-19018/1680/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Dr. Amar Nath, Small Industry Promotion Officer (Metallurgy), Branch Small Industries Service Institute, Varanasi as Assistant Director (Grade II) (Metallurgy) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Small Industries Service Institute, Guwahati with effect from the forenoon of 02.09.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI  
Deputy Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA  
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 11th September 2003

No. 4909/03/A-38012/1/(VR)/Admn./2000/19A—Shri M.R. Rangachari, Senior Administrative Officer, Geological Survey of India has retired voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 11.07.2003 under Rule 48(A)(1) of Central Civil Service (pension) Rules, 1972.

S.K. SINHA  
Senior Admn. Officer for Director General

No. 4917/03/A-38012/1(VR)/Admn./2000/19A—Shri G.F. Sanglien, Administrative Officer Grade I, Geological Survey of India has retired voluntarily from Government

service with effect from the forenoon of 01.07.2003 under Rule 48(A) (1) of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

S.K. SINHA

Senior Admn. Officer for Director General

The 12th September 2003

No. 4925/03/A-32013/HO/2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Ms. Wandana Rupesh Shambharkar, superintendent (Hindi), Geological Survey of India, to the post of Hindi Officer with effect from 13.08.2003(FN) on promotion in the same department on pay according to rules in the scales of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity, until further orders.

S.K. SINHA

Senior Admn. Officer for Director General

The 15th September 2003

No. 2617A/A-19011(1-NVD)/03/19A.—The President is pleased to appoint Smt. N. Vijay Durga, Assistant Geologist Grade I Geological Survey of India to the post of Geologist (Jr.) in the same department and in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20.03.2003 until further orders.

S.K. SINHA

Senior Administrative Officer  
for Director General

The 22nd September 2003

No. 2166SP/A-32013(SO)/2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Shri P.C. Seth, Stores Supdt. (Tech.), Geological Survey of India on promotion as Stores Officer on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/ in the same Department on regular basis with effect from 02.06.2003(FN), until further orders.

S.K. SINHA

Senior Administrative Officer  
for Dy. Director General

Kolkata-700 016, the 15th September 2003

No. 4940B/A-35018/DDG(F)/96-19C.—The President is pleased to appoint Shri Anirban Mukhopadhyaya, IAS(RJ-80) to the post of Dy. Director General (Finance) in the Geological Survey of India, on pay according to normal

rules in the scale of pay of Rs. 18,400-22,400/- for a normal tenure of five years on deputation basis with effect from the forenoon of 12.08.2003 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K.P. GAUTAM

Director (Personnel)  
for Director General

### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (RARE MATERIALS PROJECT)

Mysore-571130, the 17th September 2003

No. RMP/PER/1106/2003/2178.—The President is pleased to appoint Dr. Raju Tamilarasi as Scientific Officer Grade 'C' (Medical), in the Bhabha Atomic Research Centre, Rare Materials Project, Mysore in an officiating capacity in the Scale of Pay of Rs. 8000-275-13500 + N.P.A. with effect from forenoon of 08th August 2003 until further orders.

ANTHONY DE SA

Controller

No. RMP/PER/1093/2003/2179.—The President is pleased to appoint Dr. Santosh Prabhakar Rao Ghadgine as Scientific Officer Grade 'C' (Medical), in the Bhabha Atomic Research Centre, Rare Materials Project, Mysore in an officiating capacity in the Scale of Pay of Rs. 8000-275-13500 + N.P.A. with effect from forenoon of 30th June 2003 until further orders.

ANTHONY DE SA

Controller

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 19th May 2003

#### ORDER

No. 1/15(6)/99/Vig/265.—WHEREAS it was alleged that "Dr. (Smt.) Mridula B. Satyamurti, Scientific Officer/D, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, who was granted Extra Ordinary Leave from 21.6.1996 to 15.12.1997 for her daughter's treatment in USA did not report for duty on expiry of the leave and has been unauthorisedly absenting with effect from 16.12.1997 in spite of instructions to report for duty;

AND WHEREAS the said Dr. (Smt.) Satyamurti by her aforesaid conduct, had shown lack of devotion to duty and had acted in a manner unbecoming of a Government servant, thereby contravening the provisions of sub-rules 1(ii) and 1(iii) of Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

AND WHEREAS the said Dr. (Smt.) Satyamurti was informed of the charge and of the action proposed to be taken against her under Rule 14 of the Central Civil Services

(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, vide Memorandum No. 1/15(6)/99-Vig/804 dated 9.11.99;

AND WHEREAS the said Dr. (Smt.) Satyamurti, vide her written statement of defence dated 28.11.99 accepted the charge;

AND WHEREAS after taking into consideration the records of the case and the written statement of defence submitted by Dr. (Smt.) Satyamurti and having regard to its own findings on the article of charge, the Disciplinary Authority came to the conclusion that it would not be in the interest of work to sanction her leave indefinitely although her child is undergoing treatment in US. Considering the difficult situation she is in, a liberal view was taken in the matter and recommended that the penalty of 'compulsory retirement from service' with all admissible retirement benefits be imposed on Dr. (Smt.) Satyamurti;

AND WHEREAS, the Union Public Service Commission was consulted in the matter. After careful consideration of all relevant facts and records of the case, the Commission, vide its letter No. F.3/479/99-SI dated 31.3.2000 advised that a formal inquiry need be conducted as the charge is not accepted by the charged official unconditionally;

AND WHEREAS a formal inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 was ordered appointing an Inquiring Authority, vide Order No. 1/15(6)/99-Vig./374 dated 28.6.2000;

AND WHEREAS after completion of exparte inquiry proceedings, the Inquiring Authority submitted its report holding the charge against the said Dr. (Smt.) Satyamurti as proved;

AND WHEREAS a copy of inquiry report was sent to the said Dr. (Smt.) Satyamurti, vide Memorandum No. 1/15(6)/99-Vig./466 dated 16.10.2001 for submitted written representation, if any, against the inquiry report, which has been received back 'undelivered';

AND WHEREAS after careful consideration of the inquiry report and other records of the case and having regard to its own findings on the article of charge, the Disciplinary Authority came to the conclusion that ends of justice would be met in this case, if the penalty of 'compulsory retirement' with all admissible retirement benefits is imposed on the said Dr. (Smt.) Satyamurti;

AND WHEREAS, the Union Public Service Commission was consulted in the matter and the Commission, on due consideration of all relevant records and other aspects of the case, has advised imposition of the penalty of 'dismissal from service' on the said Dr. (Smt.) Satyamurti, vide its letter No. F.3/479/99-S.I. datd 25.7.2002 (copy enclosed);

AND WHEREAS, the Union Public Service Commission was requested to reconsider the matter. After evaluating all relevant facts and records of the case in detail, the Commission has reiterated its stand that the penalty of 'dismissal from service' be imposed on the said Dr. (Smt.) Satyamurti, vide letter No. F.3/479/99-S.I. dated 13.12.02 (copy enclosed);

NOW, THEREFORE, the President, on acceptance of the said advise of UPSC and in exercise of the powers conferred on him under rule 15(4) of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby imposes the penalty of 'dismissal from service' on the said Dr. (Smt.) Mridula B. Satyamurti, Scientific Officer/D, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, with immediate effect.

The period of unauthorised absence from 16th of December, 1997 till the date of issue of this order shall be treated as dies non.

By order and in the name of the President

ANIL KAKODKAR  
Secretary

#### (VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700064, the 15th September 2003

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/3936.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/G (Grade Rs. 16,400-450-20,000/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Dr. A. Roy	Scientific Officer (F)	Rs. 14,300-400-18300/-
2.	Dr. S.K. Bandyopadhyay	Scientific Officer (F)	Rs. 14,300-400-18300/-
3.	Shri Gautam Pal	Scientific Officer (F)	Rs. 14,300-400-18300/-

N. SRINIVASA RAO  
Chief Administrative Officer

Kolkata-700064, the 15th September 2003.

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/3939.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as "Outstanding Scientist" (Grade Rs. 22,400-525-24,500/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Dr. R.K. Bhandari	Scientific Officer (H)	Rs. 18,400-500-22400/-

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/3940.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/H (Grade Rs. 18,400-525-22,400/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri S.K. Das	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20000/-
2.	Dr. S.K. Basu	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20000/-
3.	Shri J. Chaudhuri	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20000/-
4.	Dr. D. Sarkar	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20000/-
5.	Shri Amitava Sur	Scientific Officer (G)	Rs. 16,400-450-20000/-

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

#### CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 16th September 2003

No. CAT/Admn/Rect-115(Vol.-IV)/982.—The President is pleased to appoint the following Trainee Scientific Officers as Scientific Officer 'C' in the scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/-with effect from the date indicated against their names in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

S.No.	Name of the Officer	Date
1.	Shri Alam Anoop Singh Walia	31.08.2002 (AN)
2.	Shri Nakul	31.08.2002 (AN)
3.	Shri Bhupinder Singh	31.08.2002 (AN)
4.	Shri Sankar Lal	31.08.2002 (AN)
5.	Shri Deepak Kumar Sharma	31.08.2002 (AN)
6.	Shri Yogesh Verma	31.08.2002 (AN)
7.	Kum. Pragya Pandit	31.08.2002 (AN)
8.	Shri Amit Upadhyay	31.08.2002 (AN)
9.	Shri Manoj Kumar Saxena	31.08.2002 (AN)
10.	Shri Ravdheer Singh Saini	31.08.2002 (AN)
11.	Shri D. A. Mishra	01.09.2002 (FN)
12.	Shri Surjya Prakash Ram	01.09.2002 (FN)

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

#### DEPARTMENT OF SPACE (VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695022, the 10th September 2003

No. YSSC/EST/5/1(17).—Director, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion Smt. Lucy K. Mathew, Senior Technician-A, IISU as Scientist/Engineer-SB in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Vikram Sarabhai Space Centre with effect from 01.07-2003 (F/N), until further orders.

GEORGE KOSHY  
Senior Administrative Officer

#### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. A-32013/3/2001-E.II.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Sahi, Director of Airworthiness of the Directorate General of Civil Aviation, presently on deputation as Regional Airworthiness Inspector under the COSCAP-South Asia, based at Kathmandu, Nepal on promotion to the post of Deputy Director General, in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- on regular basis with effect from the date he assumes the charge of the post of Deputy Director General in the office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi and until further orders.

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Admn.

No. A-32013/2/2001-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Subhash Chander, Director of Air Safety of the Directorate General of Civil Aviation on a temporary basis to the post of Deputy Director General of Civil Aviation, in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-, against the temporary vacancy, with effect from 12.09.2003 and upto the date of repatriation of Shri R. P. Sahi to this office from deputation or 31st March, 2004, whichever is earlier.

R. S. KATARIA  
Dy. Director of Admn.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES (CENTRAL GROUND WATER BOARD)

NH-IV, Faridabad-121001, the 8th September 2003

No. 3-1443/2003-Min. Estt.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B), the following Office Superintendents are promoted to the post of Administrative Officers (Group B Gazetted) in the temporary capacity, in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- per month plus usual allowances, from the actual date of their taking over the charge at their place of posting as shown against each :—

Sl. No.	Name	Place of posting	Date of appointment
1.	Shri Sohan Lal	MER, Patna	07.04.2003
2.	Shri A. Shiva Subramaniam	SECR, Chennai	30.07.2003
3.	Shri K. K. Srivastava	NR, Lucknow	24.07.2003
4.	Shri D. N. Mohlia	CHQ, Faridabad	01.08.2003
5.	Shri Girver Singh	SR, Hyderabad	25.07.2003
6.	Shri N. K. Basumathari	NER, Guwahati	07.07.2003

They will be on probation for a period of 2 years from the date of their joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

S. S. CHAUHAN  
Head of Department

NH-IV, Faridabad, the 12th September 2003

No. 3-1448/2003-Engg.Estt.—On the recommendations of the DPC Sh. Keshav Lal is promoted to the post of Driller-in-charge GCS (Gr. B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in CGWB on temporary basis w.e.f. 11.08.2003 (FN).

ASHIS CHAKRABORTY  
Executive Engineer

#### INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 11th September 2003

No. F.48-Ad(AT)/2003.—Shri S.K. Nay, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches, Mumbai on ad hoc basis in a temporary capacity for a period of six months with effect from the forenoon of 1st September, 2003 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon him a claim for regular appointment in that grade and the service rendered by him on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

V. DONGZATHANG  
President

No. F301-Ad(AT)/2003.—Shri Ashok Kumar Sharma, P.A. Trade Tax Tribunal, Agra, is appointed to officiate as Sr. Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Agra, Bench, Agra in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.8.2003 forenoon on deputation basis for a period of three years on the usual terms of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public

Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

V. DONGZATHANG  
President

#### MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orient Equipments Private Limited.

New Delhi-110003, the 13th August 2003

No. 560/55-18661/OGI-452/1476.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Orient Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Moulinex Home Appliances Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th August 2003

No. 560/55-39062/OGI-452/1488.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Moulinex Home Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Allied Educational Foundation.

New Delhi-110003, the 18th August 2003

No. 560/55-63322/OGI-452/1491.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Allied Educational Foundation unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Exciting Financial Services Private Limited

New Delhi-110003, the 18th August 2003

No. 560/55-71948/OG1-452/1507.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Exciting Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Recorder Press Private Limited.

New Delhi-110003, the 19th August 2003

No. 560/55-32572/OG1-452/1501.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Recorder Press Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delhi Rayscan Private Limited.

New Delhi-110003, the 19th August 2003

No. 560/55-52314/OG1-452/1504.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Delhi Rayscan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manorama Sewing Machines Private Limited.

New Delhi-110003, the 19th August 2003

No. 560/55-7948/OG1-452/1511.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Manorama Sewing Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jhankar Leasefin Private Limited.

New Delhi-110003, the 25th August 2003

No. 560/55-73200/OG1-452/1527.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jhankar Leasefin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flower Travels Private Limited.

New Delhi-110003, the 25th August 2003

No. 560/55-16122/OG1-452/1549.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Flower Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dayal Designers Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-34441/OG1-452/1592.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Dayal Designers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United Fincap Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-66201/OGI-452/1562.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. United Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bakst Indika Consultancy Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-26736/OGI-452/1565.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bakst Indika Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pan Metal Containers Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-72871/OGI-452/1568.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Pan Metal Containers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raja Sales Corpn. Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-4256/OGI-452/1571.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Raja Sales Corpn. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goodworth Mercantile Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-68629/OGI-452/1574.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Goodworth Mercantile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smriti Securities Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-65985/OGI-452/1577.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Smriti Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ravija Exports Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-14936/OGI-452/1580.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Ravija Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goodworth Fincap Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-66202/OG1-452/1583.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Goodworth Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satish Consultants Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-33973/OG1-452/1586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Satish Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Clean Securities Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-64877/OG1-452/1589.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Clean Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arvind Drug House Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-7373/OG1-452/1595.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Arvind Drug House Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nishant Commercial Services Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-37457/OG1-452/1598.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nishant Commercial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rosedale Educational Institutions Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-20711/OG1-452/1601.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Rosedale Educational Institutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mercury Overseas Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-48436/OG1-452/1604.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mercury Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivesh Computers Private Limited.

New Delhi-110003, the 26th August 2003

No. 560/55-70089/OG1-452/1607.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Shivesh Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Koenig Deinki Private Limited.

New Delhi-110003, the 27th August 2003

No. 560/55-14167/OG1-452/1614.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Koenig Deinki Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essen Stones Private Limited.

New Delhi-110003, the 27th August 2003

No. 560/55-55238/OG1-452/1617.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Essen Stones Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sachkhand Leasing Company Private Limited.

New Delhi-110003, the 27th August 2003

No. 560/55-17680/OG1-452/1620.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Sachkhand Leasing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganpath Aluminium Private Limited.

New Delhi-110003, the 28th August 2003

No. 560/55-40710/OG1-452/1624.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Ganpath Aluminium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Carewell Foods Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-16335/OG1-452/1642.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Carewell Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khazana Credits Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-38038/OG1-452/1648.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Khazana Credits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Libral Lessors and Financiers Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-1971/OG1-452/1651.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Libral Lessors and Financiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. City Decor Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-45738/OG1-452/1654.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. City Decor Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Toptrack Leasing & Finance Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-74822/OG1-452/1657.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Toptrack Leasing & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cambridge Advertising and Marketing Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-41389/OG1-452/1660.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Cambridge Advertising and Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. Prem Chand Rolling Mills Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-7421/OG1-452/1663.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. R. Prem Chand Rolling Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supermac Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-12357/OG1-452/1666.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Supermac Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madan Leasing Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-45015/OG1-452/1669.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Madan Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Subhash Packs Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-55552/OG1-452/1672.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Subhash Packs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Constellats Management Services Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-24283/OG1-452/1675.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Constellats Management Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Varini Digital Systems Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-41285/OG1-452/1678.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Varini Digital Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. All Vee Chits Private Limited.

New Delhi-110003, the 29th August 2003

No. 560/55-44089/OG1-452/1682.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. All Vee Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s S. K. V. Holdings.

New Delhi-110003, the 22nd September 2003

No. 560/55-12910/OG1-452/1697.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. S. K. V. Holdings unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sippy Leasing & Finance Private Limited.

New Delhi-110003, the 03rd September 2003

No. 560/55-47470/OG1-452/1718.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sippy Leasing & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gangotri Cattle Feed Private Limited.

New Delhi-110003, the 03rd September 2003

No. 560/55-26984/OG1-452/1775.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Gangotri Cattle Feed Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mirza PCC Sleepers and Allied  
Industries Private Limited.

New Delhi-110003, the 03rd September 2003

No. 560/55-32969/OGI-452/1772.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Mirza PCC Sleepers and Allied Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chintu Chits and Finance Private Limited.

New Delhi-110003, the 04th September 2003

No. 560/55-16693/OGI-452/1721.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chintu Chits and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ansh Life Care Pharmaceuticals Private Limited.

New Delhi-110003, the 04th September 2003

No. 560/55-49593/OGI-452/1724.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Ansh Life Care Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. N. Financial Services Private Limited.

New Delhi-110003, the 04th September 2003

No. 560/55-71004/OGI-452/1727.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. K. N. Financial

Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Winthrop India Private Limited.

New Delhi-110003, the 04th September 2003

No. 560/55-18049/OGI-452/1730.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Winthrop India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Y. K. Travels Private Limited.

New Delhi-110003, the 05th September 2003

No. 560/55-31237/OGI-452/1752.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Y. K. Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seth G. L. Bajaj Private Limited.

New Delhi-110003, the 05th September 2003

No. 560/55-10164/OGI-452/1755.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Seth G. L. Bajaj Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Al Salam Builders Private Limited.

New Delhi-110003, the 05th September 2003

No. 560/55-30413/OG1-452/1758.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of Al Salam Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radium Chemicals Works Private Limited.

New Delhi-110003, the 05th September 2003

No. 560/55-1403/OG1-452/1761.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Radium Chemicals Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Opal India Medicare Private Limited.

New Delhi-110003, the 08th September 2003

No. 560/55-22169/OG1-452/1778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Opal India Medicare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhatinda Carbonic Gas Industries Private Limited.

New Delhi-110003, the 08th September 2003

No. 560/55-32797/OG1-452/1781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Bhatinda Carbonic Gas Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spark Enterprises Private Limited.

New Delhi-110003, the 09th September 2003

No. 560/55-37309/OG1-452/1798.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Spark Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rakshit Farms Private Limited.

New Delhi-110003, the 10th September 2003

No. 560/55-18924/OG1-452/1810.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Rakshit Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Binny Traders Private Limited.

New Delhi-110003, the 10th September 2003

No. 560/55-65827/OG1-452/1832.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Binny Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Engineering & Trading Consultancy (India)  
Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-5291/OG1-452/1817.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Engineering & Trading Consultancy (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arch Marketing Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-54823/OG1-452/1820.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Arch Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amical Services Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-41602/OG1-452/1823.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Amical Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aru Chits Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-34980/OG1-452/1826.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Aru Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fast Print Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-11989/OG1-452/1829.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Fast Print Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marvel Apparel Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-73177/OG1-452/1835.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Marvel Apparel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balratna Engineering Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-59705/OG1-452/1838.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Balratna Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Richmond Chits Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-18178/OG1-452/1841.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Richmond Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Curvet Heritage Retreats Private Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560/55-71163/OG1-452/1844.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Curvet Heritage Retreats Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

RAJ KUMAR SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oiltek Rasmos (India) Limited.

New Delhi-110003, the 12th September 2003

No. 560(3)/SES/117/55/61074/6281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Oiltek Rasmos (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Silver Oak Investments Private Limited.

New Delhi-110003, the 15th September 2003

No. 560(3)/SES/5/05/32314/4385.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof, the name of M/s. Silver Oak Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Go Mo Modi Institute of English Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th September 2003

No. 560(3)/SES/46/55-105341/4389.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Go Mo Modi Institute of English Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chandra Hospital Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th September 2003

No. 560(3)/SES/124/05-33745/6329.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chandra Hospital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Priyanka Pharmaceuticals Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th September 2003

No. 560(3)/SES/122/05/19247/6332.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Priyanka Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaan-E-Alam Chits Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th September 2003

No. 560(3)/SES/123/05-30476/6335.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Jaan-E-Alam Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Baheti Trading Private Limited.

Gwalior-474009, the 17th September 2003

No. ROC-G/11241/Sec. 560(3)/1856.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (three) months from the date hereof the name of M/s. Baheti Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Divya Securities & Finance Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 345/69911/560/2601.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Divya Securities & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samstronics (India) Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 344/103718/560/2603.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of M/s. Samstronics (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nucleus Medical Centre Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 332/52915/560/2605.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nucleus Medical Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Flywheel Solutions Private Limited

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 329/129495/560/2607.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Flywheel Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Girijatmack Cargo Lifter Private Limited

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 334/63946/560/2609.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Girijatmack Cargo Lifter Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nacanco Can and Packaging India Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 339/114990/560/2611.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nacanco Can and Packaging India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Logistics Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 340/100142/560/2613.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apex Logistics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Naikaj Investments & Trading Company  
Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 333/70094/560/2615.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Naikaj Investments & Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satsang Investments & Trading Company  
Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 330/70095/560/2617.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of M/s. Satsang Investments & Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. John Fairfax South Asia Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 337/131660/560/2619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. John Fairfax South Asia Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Omeca Corporate Services Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 322/76533/560/2621.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Omeca Corporate Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalsa Impex Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 336/121097/560/2623.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kalsa Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Impianti Sistema Gel Technology (India) Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 335/114319/560/2625.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Impianti Sistema Gel Technology (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kirkwood (India) Communicators Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 343/113525/560/2627.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kirkwood (India) Communicators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nidhkris Consultants & Services Private Limited.

Mumbai-400002, the 1st September 2003

No. 341/111525/560/2629.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Nidhkris Consultants & Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CV India Valves Private Limited.

Mumbai-400 002, the 1st September 2003

No. 342/114653/560/2631.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from

the date hereof M/s. CV India Valves Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interwave Communications India Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 347/128348/560/2854.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Interwave Communications India Pvt. Ltd., unless is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Masjid Moth Investment & Trading Co. Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 346/32755/560/2856.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Masjid Moth Investment & Trading Co. Pvt. Ltd., unless is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
application under Fast Track Scheme under section 560  
of the Companies Act, 1956 of M/s. Akanksha Engg.  
Plastics Private Limited.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 2428/31736/560/2858.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 read with circular no. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 the Department of Company Affairs, Government of India, that any person, authority etc., having any objection to the above may communicate their objections in writing to the undersigned within a week hereof.

M/s. Akanksha Engg. Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nerker Print Communication Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 353/66162/560/2859—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Nerker Print Communication Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dayton Trading Co. Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 351/30160/560/2861—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Dayton Trading Company Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anmol Valves & Fittings Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 350/65582/560/2863—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Anmol Valves & Fittings Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Niket Trading Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 348/53424/560/2865—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Niket Trading Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quality Club Ventures Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 349/122788/560/2867—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Quality Club Ventures Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Viraj Trading Company.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 354/30181/560/2869—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Viraj Trading Company, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ujjwala Real Estate Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 355/123127/560/2871—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Ujjwala Real Estate Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unique Graphic Engraving Pvt. Ltd.

Mumbai-400 002, the 19th September 2003

No. 352/100533/560/2873—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of the three months from the date hereof M/s. Unique Graphic Engraving Pvt. Ltd., unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Company.

Bangalore-560034, the 17th September 2003

No. JTA/KM/560(3)/2003-04—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of One Month from the date hereof the name of the following Company, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved :—

S. No.	Company No.	Name of the company
I.	18677	M/s. Chan Fashions Private Limited.

T.S.D. PRASADA RAO  
Asstt. Registrar of Companies,  
Karnataka